

GE T&D India Limited

L31102DL1957PLC193993

T-5 & T-6, Plot I-14, Axis House, Jaypee Wishtown, sector-128, Noida-201304, Uttar Pradesh

T +91 120 5021500 F +91 120 5021501

https://www.ge.com/in/ge-td-india-limited

November 12, 2021

The Secretary BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street MUMBAI 400 001 The Manager Listing Department National Stock Exchange of India Ltd Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East)

MUMBAI 400 051

Code No. 522275

Symbol: GET&D

Dear Sir,

Sub: Newspaper Publication

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith Newspaper advertisement published in Mint (all editions) and Jansatta (New Delhi) regarding financial results for the second quarter and half-year ended on September 30, 2021 (Unaudited).

You are requested to take note of the same.

Thanking you,

Yours faithfully,

For GE T&D India Limited

Manoj Prasad Singh Company Secretary





Tata Steel's profit jumps to ₹12,547 cr

Tata Steel said its total income in the quarter was ₹60,553.63 crore

ata Steel on Thursday said its consolidated net profit jumped manifold to 12,547.70 crore in the July-September quarter helped by higher income.

The company had reported net profit of 11,665.07 crore in the corresponding quarter of the previous financial year.

Tata Steel said in a BSE filing that its total income during the period was 460,533.63 crore, against 39,157.79 crore in the year-ago period.

The firm reported total expenses of 474,135.28 crore, against 37,000.28 crore a year ago. On a standalone basis, net profit grew to 87,707.26 crore from \$2,538.70 crore in July-September 2020. Its standalone income was 322,964.39 crore during the auguster under income was ₹32,964,39 crore during the quarter under

In a separate statement, the company said its consolidated steel output was at 7.77 million tonnes (mt), higher than 7.25

Tata Steel chief executive Tata Steel chief executive officer and, anging director T V Narendran saidthe company has delivered strong results across key geographies in this seasonally weaker quarter. The deliveries in India expanded by 11% despite a contraction in market demand.

"We recently exited our operations in Singapore

(36)



through the sale of NatSteel. European operations have also delivered robust performance underpinned by strong improvement in realizations. We are watchful of the elevated coal prices and high energy cost as key risks to mar-gins going forward. Our 5 MTPA TSK (Tata Steel Kalin-MTPA TSK (Tata Steel Kalin-ganagar) phase II expansion including the pellet plant and CRM (cold rolling mill) com-plex is progressing well and the merger of Tata Steel BSL with Tata Steel will be com-pleted shortly," he said. Tata Steel recently won the high quality Gandhalpada iron

high quality Gandhalpada iron ore mines which will help achieve raw material security beyond 2030, Narendran said. Tata Steel has in a statement

rata Steernastina statement said that it completed the divestment of its 100% stake in NatSteel Holdings Pte. Ltd. Singapore, and that the merger of Tata Steel BSL with Tata Steel has been approved by the NCLT, Mumbai bench.

m Strengthening Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1 GW) under Phar ses contract for maintenance of 400 kV Gas Insulated Substation at Kevadia in Gujarat from Sardar Sari

Key Commissioning of Water Insulated Switchgear (GIS) bays of various ratings along with transformers and Bus Reactors are Pradesh Power Transmission Corporation Ltd at Hardol Road in Ultar Pradesh

Five 220 kV AIS bays along with switchboards and transformers for 300MW Solar Plant evacuation for Surva Ur EXTRACT OF STATEMENT OF LINAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED 30TH SEPTEMBER 2021

Eight Air Insulated Switchgear (AIS) bays of various ratings for Damodar Valley Corpora 220 kV Gas Insulated Substation for Kerala State Electricity Board at Kunnamanga



PARTICULARS evenue from operations 50,553.2 51,128.64 35.632.16 otal comprehensive income for the period [Comprising Profit/(L for the period (after tax) and Other Comprehensive i Paid-up equity share capital (Face Value of ₹ 5/-) Other Equity Earning Per Share (EPS) (₹ per share of ₹ 5/- each) 28,102.13 28,102.13 31,595.58 28,102.13 28,102.13 28,102.13 31,595.58 28,102.13 i) Basic & diluted EPS before Extraordinary items in ₹

GE T&D INDIA LIMITED

The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 11° November, 2021.

CORPORATE

- The Auditors of the Company have carried out "Limited Review" of the above financial results for the quarter and half year ended 30" September, 2021.
- These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and relevant amendment full est thereafter.

Date: November 10, 2021 Place: New Delhi

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulations 33 of the SEII (Listing and Other Disclosures Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the Stock Exchange Websites: www.besindia.com.and www.neeindia.com. The same

Sd/-(Vartika Shukla) C&MD and Addnl. Charge of Director (Finance) & Director (Technical) DIN: 08777885




ii) Basic & diluted EPS after Extraordinary items in ₹

Regd. Office: Engineers India Bhawan, 1, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066
Telephone: 011-267221, Fax: 011-26178210
E-malt: ell:nhtg@ell.co.in, Website: www.engineersindia.com, CIN: L74899DL1965G01004352

1 /EngineersIND (2) @EngineersIND /company/engineers-india-limited





Rajit Mehta Managing Director DIN: 01604819

ANTARA

S. No.		Quarter ended		Six Months Ended	Year ended	
	PARTICULARS	30.09.2021 (Unaudited)	30.09.2020 (Unaudited)		31.03.2021 Audited	
1.	Total income	8,519.0	8,766.3	14,903.2	35,181.3	
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	(96.5)	131.5	(349.2)	858.8	
3.	Net profit / (loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(96.5)	131.5	(349.2)	893.4	
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(77.3)	86.1	(269.9)	603.2	
5.	Total comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(50.1)	67.6	(215.5)	711.9	
6.	Equity share capital	512.1	512.1	512.1	512.1	
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				10,714.7	
8.	Basic and diluted EPS for the period (Face value of ₹ 2 each) (in ₹)	(0.3)	0.3	(1.1)	(2.4)	

Business News put their trust in livemint.com to ma India's No. 1 Business News Site int.com to make it

INDSIL HYDRO POWER AND MANGANESE LIMITED

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER 2021 30.09.2021 30.06.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.06.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020 31.03.2021 30.09.2021 30.09.2020 31.03.2021 ome from Operations (net) 5.662.87 10.139.38 6.332.83 5.662.87 1.216.79 10.139.37 6.332.81 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items) (4,106.84) 568.56 203.26 (256.25) 771.83 (608.42) (4,096.84) 566.83 203.26 (263.83) 770.09 (617.10) Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax and other Comprehensive Income (after tax) (251.58) 817.76 (3,744.19) 2,130.81 989.27 3,120.08 (4,676.23) 2,779.11 2,779.11 2,779.11 2,779.11 2,779.11 2,779.11 2,779.11 2,779.1 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shin the Audited Balance Sheet of the previous year 10.351.97 2.36 (0.91) 2.93 (2.23)11.22 (9.93) (16.83) Diluted : (in Rs.) 2.36 0.57 2.93 7.66 11.22 (9.93) (16.83)

Place : Coimbatore Date : 11.11.2021

- tes :
 The above is an extract of the detailed format of Quarterly & Half Yearly Una
 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulatio
 website (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.indsil.com)
- The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and appr same is carried out by the Statutory Auditors of the Company.
 - The figures for the previous periods have been re-grouped / re-arranged wherever nece

VINOD NARSIMAN Managing Director DIN: 00035746

साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड

30.9.2021 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सार

_	ा विवरण	समाप्त तिमाही 📊	समाप्त छिमाही	। पूर्व वर्ष में समाप
	(नीचे टिप्पणी देखें)	(30.9.2021) (अनंकेक्षित)	(30.9.2021) (अनंकेक्षित)	तत्स्थानीय 3 मही (30.9.2021) (अनंकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय	628.18	962.31	824.5
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व*)	62.87	78.62	(101.69)
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद*)	62.87	78.62	(101.69
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद*)	44.13	59.88	(101.69
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	44.13	59.88	(101.69
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	1002.65	1002.65	1002.6
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)			
1.	मूल	0.44	0.60	(1.01
2.	तरल	0.44	0.60	(1.01

1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टाक एक्सचेंज में दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण विवरण प्रारूप का सार है। तिमाही तथा छमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज तथा सूचीबद्ध सत्ता की वेबसाईट पर उपलब्ध है। 2. लेखा नीतियों में परिवर्तन के कारण शुद्ध लाभ/ हानि, कुल व्यापक आय अथवा किसी अन्य संबंधित वित्तीय मदों पर प्रभाव को फुट नोट द्वारा उद्घाटित किया जाएगा।

3. # जो भी लाग हो, इंड-एएस नियमावली/एएस नियमावली के अनसार विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों को लाभ तथा हानि के विवरण में समायोजित किया गया है। साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के लिए

> नामः तेजिन्दर कौर पदनामः प्रबंध निदेशक DIN: 06799570

श्री वोसेटेक्स लिमिटेड

तिथि: 11.11.2021

सीआईएन : L17111DL1982PLC013790 पंजी. कार्या.: 325, तृतीय तल, अग्रवाल प्लाजा, सेक्टर-14, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 मोबाइल नं. 9315202833, ई-मेल : shreeworstex@gmail.com, info@shreeworstex.in वेबसाइट : www.shreeeworstex.in 30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्ध-वर्ष हेत् स्टैंडअलोन अ-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के निष्कर्ष

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.09.2021 (अ—लेखापरीक्षित)	वर्ष प्रतिवर्ष के आंकड़े (समाप्त अर्द्ध—वर्ष) 30.09.2021 (अ—लेखापरीक्षित)	पूर्ववर्ती वर्ष में समाप्त तदनुरूपी 3 माह 30.09.2020 (अ—लेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय	11.96	188.82	51.91
2	अवधि हेतु निवल लाम/(हानि) (कर, आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	8.00	180.93	26.63
3	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाम/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरान्त)	8.00	180.93	26.63
4	कर उपरान्त अवधि हेतु निवल लाम/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरान्त)	5.73	152.99	22.27
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ / (हानि) (कर उपरान्त) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरान्त) से समाविष्ट]	9.48	2.90	13.94
6	समता अंश पूंजी	314.00	314.00	314.00
7	आरक्षितियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) पूर्ववर्ती वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन–पत्र में निदर्शितानुसार	259.03	259.03	99.81
8	आय प्रति अंश (रु. 10/— प्रत्येक का) (निरंतर जारी तथा बंद प्रचालनों हेतु)— 1. मूल			
	2. तनुकृत	0.18	4.87	0.71

1. दिनांक 30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्ध—वर्ष के स्टैंडअलोन अ—लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की लेखा—परीक्षक समिति द्वारा समीक्षा की गई है तथा इनका कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा 10 नवंबर 2021 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन किया गया है। परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के विवरए के साथ स्टैंडअलोन अ—लेखापरीक्षित त्रैमासिक एवं अर्झ—वार्षिक समाप्ति वाले वित्तीय परिणाम जो हैं वो कंपनी के संवैधानिक लेखापरीक्षकों से प्राप्त किए गए सेबी (सुचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अनुपालन में लेखापरीक्षक के प्रतिवेदनाधीन हैं। उपरोक्त जो है वो सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास दर्ज समाप्त तिमाही एवं अर्झ-वर्ष के अ-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक निष्कर्ष है। अ-लेखापरीक्षित त्रैमासिक वित्तीय परिणामों क पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज(जों) की वेबसाइट अर्थात मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.msei.in) बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) तथा कंपनी की वेबसाइट (www.shreeworstex.in) पर उपलब्ध है।

श्री वोर्सटेक्स लिमिटेड हस्ता. /-दिनांक : 10.11.2021 पवन कुमार मित्तल (निदेशक) स्थान : नई दिल्ली डीआईएन : 0074926

विवरण

अविध के लिए कुल व्यापक आय (अविध (कर के बाद) के लाभ/ (हानि) तथा अन्य 52.80

पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर अन्य

आय प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व) (वार्षिकीकृत नहीं)

आय प्रति शेयर (असाधारण मदों के बाद) (वार्षिकीकृत नहीं)

से पूर्व)

त्र्यापक आय (कर के बाद से शामित

(सम मुल्य रु. 10/- प्रति शेयर)

प्रदत्त इक्विटी शेयर पंजी

क) मूल

ख) तरल

ख) तरल

स्थानः नई दिल्ली

www.readwher com

2021

अनंकेशित

69.17

1.16

1.16

1.16

1.16

का सार है। स्टैण्डएलॉन तथा समेकित वित्तीय परिणामों का संपर्ण प्रारूप स्टाक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कंपनी वेबसाइट www.eesl.in पर उपलब्ध है।

1.83

1.83

1.83

1.83.

इमजेन्ट इंडस्टियल सॉल्युशन्स लिमिटेड

(पूर्व में ईमर्जेन्ट ग्लोबल एडु एंड सर्विसेस लिमिटेड) CIN: L80902DL1983PLC209722 पंजी. कार्यालय: 8-बी, 'सागर', 6, तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन: (91) (11) 2378 2022, 2338 2592; Fax: (91) (11) 2378 2806, 2338 1914; Email: cs@somanigroup.com; Website: www.eesl.in 30 सितम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के स्टैंडएलॉन एवं समीकित अनेकेक्षित वित्तीय परिणामी का सारांश

2020

अनंकेक्षित

142.93

2.33

2.33

2.33

2.33

टिप्पणी: उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टाक एक्सचेंज में दाखिल की गई 30 सितम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारू

2021

अनंकेक्षित

2.98

2.98

2.98

2.98

2020

अनंकेक्षित

21,603.10

5.13

5.13

5.13

तिथि : 09.11.2021

स्थान : नई दिल्ली

2021

अंकेक्षित

9.40

9.40

9.40

2020

1.09

1.09

1.09

1.09

अनंकेक्षित अनंकेक्षित अनंकेक्षित

108.00

1.76

1.76

1.76

2.29

2.29

2.29

2.85

2.85

2.85

5.06

5.06

ईमर्जेन्ट इंडस्ट्रियल रिसोर्सेस लिमिटेड के लिए

(रु. लाख में)

अद्भृत इफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड प्तीआईएन : L51503DL1985PLC020195

पंजीकृत कार्यालय : डी-15, पम्पोश एन्कलेव, ग्रेटर कैलाश-1, दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली-110048 । दूरभाष : 011-45210051 -मेल : adhbhutind@rediffmail.com | वेबसाइट : www.adhbhutinfra.com

छत्तासवी वार्षिक आम बेठक, इ-वाटिंग

तथा बुक क्लोजर की सुचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अद्भुत इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (''कंपनी'') के सदस्यों की 36वीं (छत्तीसवीं) वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') एजीएम की सचना में निर्धारित व्यवसायों के लेन-देन के लिए सोमवार, 29 नवम्बर, 2021 को दोपहर 01.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'') / अन्य ऑडियो विजुअल साधन (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कोविड-19 महामारी को देखते हुए, कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (''एमसीए'') ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र जारी संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल. 2020 सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई. 2020, तथा सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 के माध्यम से अपनी एजीएम वीसी या ओएवीएम के माध्यम से संचालित करने की अनुमति दी है।

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों सहित वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सुचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों के पास 1 नवम्बर, 2021 को भेज दी है जिनके ईमेल पते कंपनी या डिपॉजिटरियों/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना की भौतिक प्रतियां भोजने की आवश्यकता एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्र द्वारा समाप्त कर दी गयी है। यथा संशोधित प्रयोज्य प्रासंगिक नियमों तथा भारतीय प्रतिभृत एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं

प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (''सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015'') के विनियम 42 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार एतद्वारा यह सूचना भी दी जाती है कि एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिकाएं 27 नवम्बर, 2021 से 29 नवम्बर, 2021 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेंगी। इसके अलावा यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी

अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 द्वारा संशोधित और प्रतिस्थापित और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी सदस्यों को 36वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्तावीं पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ('रिमोट ई-वोटिंग') द्वारा वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्न है। एजीएम में भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य के लिए गिना जाएगा। कंपनी ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (इसके बाद सीडीएसएल' के रूप में संदर्भित) को रिमोट ई-वोटिंग सविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में नियक्त किया है। अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनसार विवरण नीचे दिया गया है:

. रिमोट ई–वोटिंग की अवधि 26 नवंबर, 2021 (सुबह 9:00 बजे) से शुरू होगी और 28 नवंबर, 2021 (5:00 बजे) को समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉडयल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले कंपनी के सदस्य, जिनके नाम 22 नवंबर, 2021 की कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज हैं, रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ-साथ एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने के हकदार होंगे।

कोई भी व्यक्ति जिसने शेयरों का अधिग्रहण किया है और एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद लेकिन 'कट-ऑफ तिथि' से पहले सदस्य बन गया है, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर अन्तरण एजेंट, मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड, बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99 मदनगीर, स्थानीय शॉपिंग सेंटर के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के पास, नई दिल्ली -110062, दूरभाष: 011-29961281-83 ईमेलः beetalrta@gmail.com से ई-वोटिंग के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि , यदि सदस्य पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है तो वह ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए अपने वर्तमान युजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 कंपनी की वेबसाइट www.adhbhutinfra.in और सीडीएसएल वेबसाइट www.evotingindia.com और बीएसई वेबसाइट www.bseindia.com रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित विस्तृत निदेशों के लिए, सदस्य 36वीं वार्षिक आम बैठक की सचना मे

'टिप्पणियां' खंड में देख सकते हैं। बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट देने वाले सदस्य भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दोबारा डालने के हकदार नहीं होंगे।

यदि आपके पास ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल लिख सकते हैं या 022- 23058738 और 022-23058542/43 पर संपर्क कर सकते हैं।

कृते अद्भुत इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अनुभव धाम

(शेयरों तथा ईपीएस की संख्या को छोडकर रु. लाखों में

अनंकेक्षित

ामाप्त अवधि के लिए

अनंकेक्षित

9.15

9.15

9.15

9.15

बोर्ड के आदेश से

आर.सी. खण्डूर्र

(निदेशक

DIN: 02656812

MODI SPINNING &

WEAVING MILLS CO. LTD. Regd. Office: Modinagar-201201 (U.P.) CIN No. U17111UP1946PLC001428

NOTICE

E-MAIL ID: mswmcoltd@gmail.com

Notice is hereby given pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 25th November, 2021 to 26th November, 2021.

By order of the Board For Modi Spinning & Weaving Mills Co. Ltd. Dated: 09.11.2021 Rajendra Sharma Place : Modinagar Dy. Company Secretary

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Sh. Tarunpreet Singh JMIC Ludhiana Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana

CNR NO: PBLD03-048055-2018 Next Date: 13-12-2021 Kotak Maindra Bank Bhoopendra Kumar

Notice To: Bhoopendra Kumar C/o Bhupender Milk Agency, R/o H No 5738 Gali No 4 V- Block Vijay Park Delhi Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 13-12-2021 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above saod case will be heard and determined as per law, in your absence, for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/? trs=district_notice&district=ludhiana JMIC_Ludhiana

COURT NOTICE In The Court Of Ravipal Singh JMIC

. Phagwara Vinod Kumar S/o Ram Piara R/o Swami Param Nagar Khothran/ Banga Road, Tehsil Phagwara, Distt Capurthala Jatinder Kumar S/o Devanrayan

Tiwari R/o Village Dandpur Ahibarar Rajaka Purwa) P.o Dharauli thana ANTU- 230503 Pratapgarh U.P. CNR NO: PBKPA1-001164-2015 Next Date: 14-12-2021

Publication Issued To : Jatinder Kumar S/c Devanarayan Tiwari R/o Village Dandpur Ahibaran (RajakPurwa), P.o Dharauli Thana Antu- 230503 Pratapgarh U. P. above titled case, the accused could not be erved. It is ordered that accused should appear person or through counsel on 14-12-2021 at 0:00 a.m. for details logon to : tips://highcourtchd.gov.in/?trs=district_natice& trict=Kapurthala

Ravipal Singh JMIC-1, Phagwara

'फॉर्म यूआरसी—2"

(कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 374(ख) और (पंजीकरण हेतु अधिकृत) नियमावली, 2014 के नियम 4(1) के अनुसरण में) एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम

2013 की घारा 366 की उप-धारा (2) के अनुसर में, रजिस्ट्रार, नई दिल्ली के पास एक आवेदन किर गया है कि मिल्की इंवेस्टमेंट, एक साझेदारी फर्म व कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग । अंतर्गत शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के तौर प पंजीकत किया जाए।

व्यापार करने के लिए. चाहे भारत में हो या बाहर हो

शेयरों के रूप में समूह की कंपनीयों में निवेश करन बांड, डिबेंचर्स, कर्ज, ऋण वा प्रतिभृतियां औ गांरटी प्रदान करना, सहायक के अन्य रूप या अन

अनुच्छेद एवं एसोसिएशन की प्रति का निरीक्षण चौथा फ्लारे, पंजाबी भवन, 10 राउज एवेन्यू, नई

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति लिखित रूप में, इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार, सेन्ट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर (सीआरसी), प्लॉट नं. 6,7,8, सैक्टर-5, आईएमटी मानेसर, जिला गुढगांव-122052 हरियाणा

में सूचना का विज्ञापन

कंपनी का मूल उद्देश्य निम्न प्रकार से है:--

आकरिमक देनदारियों को लेना, किसी समृह व कंपनीयों की ओर से या उनकी ओर से और म्युचुअर फंड और सरकारी प्रतिभृतियों में निवेश करने व प्रस्तावित कंपनी के मसौदा ज्ञापन और कंपनी के

दिल्ली 110002 में स्थित कार्यालय में किया जा सकता

को मेज सकता है। आवेदक का नाम हस्ता/-दिनांक : 10.11.2021 आनंद चंद बर्मन मिन्नी बर्मन

"फॉर्म युआएसी—2" अध्याय XXI के भाग । के अंतर्गत पंजीकरण के बारे में सूचना का विज्ञापन (कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 374 (ख) और

> एतदद्वारा सबना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 366 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, रजिस्ट्रार, नई दिल्ली के पास एक आवेदन किया गया है कि एम बर्मन इंवेस्टमेंट, एक साझेदारी फर्म को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग । के अंतर्गत शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के तौर पर पंजीकृत किया जाए।

(पंजीकरण हेतु अधिकृत) नियमावली, 2014 के नियम

4(1) के अनुसरण में)

कंपनी का मूल उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं:--व्यापार करने के लिए, वाहे भारत में हो या बाहर हो शेयरों के रूप में समूह की कंपनीयों में निवेश करना, बांड, डिबें वर्स, कर्ज, ऋण या प्रतिभृतियां और गांरटी प्रदान करना, सहायक के अन्य रूप या अन्य आकरिमक देनदारियों को लेना, किसी समूह की कंपनीयों की ओर से या उनकी ओर से और म्युयुअल फंड और सरकारी प्रतिभृतियों में निवेश करने के

प्रस्तावित कंपनी के मसौदा ज्ञापन और कंपनी के अनुच्छेद एवं एसोसिएशन की प्रति का निरीक्षण बौथा फ्लारे, पंजाबी भवन, 10 राउज एवेन्यू, नई दिल्ली 110002 में स्थित कार्यालय में किया जा सकता एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन पर आपति करने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति

लिखित रूप में, इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार, सेन्ट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर (सीआरसी), प्लॉट नं. ६,7,8, सैक्टर-5, आईएमटी मानेसर, जिला गृहगांव-122052 हरियाणा को भेज सकता है।

आवेदक का नाम

हस्ता /-मोनिका बर्मन दिनांक : 10.11.2021

L52110DL1985PLC021076

% www.shashankinfo.in in fo@shashankinfo.in

प्रचालनी से कुल आव (निवल) अवधि हेतु निवस साम/(हानि) (कर् आववादिक एवं/अध्वा -9.77असध्यालन यदों से पूर्व) -5.77 -1.55कर पूर्व अवधि हेतू निवल लाभ/(हानि) (आपवारिक एवं/अशवा असम्बारण मदी के जपरान्त) -3.77-1.14कर उपरान्त अवधि हेतु निवस समा/(हानि) (अधवादिक एवं/अधवा असाधारण मदी के उपरान्त) -5.77-1.14अवधि हेतु कुल व्यापक आध ध्यवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर उपरान्त) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरान्त) से समाविष्ट 509.58 309:38 समता अंत पूजी आविश्वतियां (युनर्युज्यकान आविशा को कोन्कर) पूर्ववर्ती वर्ष लेखमरीविता गुलन-पत्र में निर्दार्थतानुसार आव यति श्रेष (त. 10/- प्रत्येक का) (निशंतर जारी तथा बंद प्रचासनी हेतू)--0.06 -0.12-0.12-0.04 -6.08

उपर्यक्त जो है से लेबी (सुर्वीकरण दायित्व एवं अन्य प्रकटीकरण आवश्वकतार) विनिवनावली 2015 के विनिवन 30 वं अंतर्गत बीएसई एवं सीएसई के पास दर्ज 30 सितंबर 3021 को समाम तिमाढ़ी एवं अर्द्ध-वर्ग के अ-लेखायरैकित विलीध वरिणानों के विभाग प्रारूप का एक निष्कर्ष है। उपर्युक्त किलीप परिणानों का पूर्ण प्रारूप बीएनई की वेबसाइट अर्धात (www.bseindia.com) तथा कंपनी की वेबसाइट (www.thsehinfo.in) पर उपलब्ध है। उपरोक्त अ-तेखापरीवित विलीय परिणामी को कंपनी (अर्जुएनदीएएस) नियमावली 2015 के अनुपालन के अंतर्गत तैयार किया जाता है।

जीई टीएंडडी इंडिया लिमिटेड भारत के ऊर्जा पारगमन को सक्षम बनाते हुए

मुख्य उपलब्धियां

- भूटान पावर कार्पोरेशन (बीपीसी) द्वारा एक टर्नकी आधार पर भूटान में चार गैस इंस्लेटेड सबस्टेशन (जीआईएस) बनाने के लिए
- राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 GW) से बिजली की निकासी के लिए, ट्रांसमिशन सिस्टम सुद्गीकरण योजना के अंतर्गत, चरण-2 के तहत 500एमवीए 765केवी पावर ट्रांसफॉर्मर्स के लिए पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया से निरंतर आदेश
- सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड से गुजरात के केवड़िया में 400 केवी गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन के रखरखाव के लिए सेवा अनुबंध सिद्धार्थ इंजीनियरिंग प्रावइवेट लिमिटेड से अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में सन्नह 132केवी / 145 केवी गैस इंसुलेटेड रिवचिंगयर
- खंडों की आपूर्ति
- टोरेंट पावर लिमिटेड से गुजरात के गांधीनगर में 245 केवी गैस इंस्लेटेड स्विचयार्ड

चालू की गई मुख्य परियोजनाए

- उत्तर प्रदेश के हरदोई रोड पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसिंगशन कार्पोरेशन लिमिटेड के लिए ट्रांसफॉर्मर और बस रिएक्टरों के साथ विभिन्न रेटिंग के सत्रह गैस इंस्लेटेड स्विचगियर (जीआईएस) खंड
- पश्चिम बंगाल के बर्दवान में दामोदर घाटी निगम के लिए विभिन्न रेटिंग के आठ एयर इंसुलेटेड स्विचगियर (एआईएस) खंड केरल के कुन्नमंगलम में केरल राज्य विद्युत बोर्ड के 200 केवी गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन
- बीकानेर में सर्य ऊर्जा के लिए 300 मेगावाट सौर संयंत्र निकासी के लिए स्विचबोर्ड और टांसफॉर्मर के साथ पांच 220 केवी एआईएस खंड अडानी के बीकानेर-खेतडी ट्रांसिंगशन लिमिटेड, बीकानेर के लिए सात 80 एमवीएआर लाइन रिएक्टरों के साथ दो 765 केवी
- एआईएस एक्सटेंशन खंड सफलतापूर्वक चार्ज किए गए 30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

र मिलियन प्रति शेयर ढाटा छोडकर

समाप्त तिमाही समाप्त छमाही समाप्त वर्ष 20 00 2024 | 20 00 2020 | 20 00 2024 | 24 02 2024

क्र. संख्या	विवरण	30.09.2021 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2020 (अलेखापरीक्षत)	30.09.2021 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2021 लेखापरीक्षित
1.	कुल आय	8,519.0	8,766.3	14,903.2	35,181.3
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (कर, अपवादात्मक और/या असाधारण मदों से पूर्व)	(96.5)	131.5	(349.2)	858.8
3.	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मदों से बाद)	(96.5)	131.5	(349.2)	893.4
4.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मदों से बाद)	(77.3)	86.1	(269.9)	603.2
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि (कर पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) के लिए लाभ हानि मिलाकर]	(50.1)	67.6	(215.5)	711.9
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	512.1	512.1	512.1	512.1
7.	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलना पत्र में दर्शाई गई है	5.50	*	*	10,714.7
8.	अवधि के लिए मूल और तनुकृत इपीएस (प्रत्येक रु 2 का अंकित मूल्य) (रुपयों में)	(0.3)	0.3	(1.1)	(2.4)

- क) उपर्युक्त, सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में 30 सितम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए प्रस्तुत किए वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रपत्र का उद्धरण है। वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट www.ge.com/in/ge-td-india-limited तथा स्टाक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध है।
- ख) चपर्युक्त अलेखापरीक्षित परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समिक्षा की गई है तथा उसे दिनांक 10 नवंबर, 2021 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदित किया गया। 30 सितम्बर 2021को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए अलेखापरीक्षित परिणाम कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा ऑडिट किया जा चुका है।

जीई टीएंडडी इंडिया लिमिटेड के लिए (पीताम्बर शिवनानी) प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

डीआईएनः 05187407

दिनांकः नवंबर 10, 2021

स्थान : नोएडा

CIN - L31102DL1957PLC193993 **पंजीकृत कार्यालयः** ए−18, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस−2, नई दिल्ली−110020 फोन नः 91 11 41610660, वेबसाईटः www.ge.com/in/ge-td-india-limited



CIN: L15311DL1993PLC052624

Regd. Office: 149, 1" Floor, Kilokari, Ring Road, Ashram, New Delhi-110014 Corporate Office: 1401-1411, 14th Floor, Logix City Center, Sector-32, Noida-201301, Uttar Pradesh Tel.: 0120-6013232, Email: dfm@dfmfoods.com, Website: www.dfmfoods.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/HALF YEAR ENDED 30™ SEPTEMBER, 2021 (₹ in lakhs)

Quarter Ended Half Year Ended Quarter Ended SI. No. **Particulars** 30" Sept., 2021 | 30" Sept., 2021 | 30" Sept., 2020 Unaudited Unaudited Unaudited Total income from operations 14712 25757 14127 Net Profit/(Loss) for the period (410)(632)1386 (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items) Net Profit/(Loss) for the period before tax 1386 (410)(632)(after Exceptional and/or extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax 1032 (313)(486)(after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period (304)(466)1022 [Comprising Profit/(Loss) for the the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)] 1005 Paid-up Equity Share Capital, Equity Shares of ₹2/- each 1005 1005 Other equity as shown in the Audited Balance sheet 16802 Earnings Per Equity Share of face value of ₹2/- each (for continuing and discontinued operations) (not annualised) (0.97)2.05 (0.63)

Notes: The above Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2021 were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors at their meeting held on 11" November, 2021. The Statutory Auditors of the Company have carried out a limited review of the above financial results and they have

Diluted

issued an unmodified report.

the recognition and measurement principles as laid down in the Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time. The Company's operations and financial results for the quarter

These financial results have been prepared in accordance with

and half year ended September 30, 2021, have been temporarily impacted by the outbreak of Covid-19 pandemic. The Company has considered the possible effects that may result from the Covid-19 pandemic on the financial results and in this regard, the Company has made detailed assessments of its liquidity position for next one year and of the recoverability and carrying value of its assets comprising Inventories and other current assets as at the reporting date and on the basis of evaluation, based on the current estimates, the Company has concluded that there is no material adjustments required in the financial results. Given the uncertainties associated with nature, condition and duration of COVID-19, the impact assessment on the Company's financial results will be continuously made and provided for as required. The Indian Parliament has approved the Code on Social

Security, 2020 which would impact the contributions by the Place: Noida

Dated: 11" November, 2021

Labour and Employment has released draft rules for the Code on Social Security, 2020 on November 13, 2020, and has invited suggestions from stakeholders. The Company will assess the impact and its valuation and will give appropriate impact in its financial statements in the period in which, the Code becomes effective and the related rules to determine the financial impact are notified. The above unaudited financial results have been prepared in

(0.97)

Company towards Provident Fund and Gratuity. The Ministry of

2.05

(0.63)

accordance with the amended Schedule III and accordingly previous period/year's figures been regrouped/reclassified as necessary to compare with the current period results.

During the quarter 4,364 equity shares of ₹2/- each were alloted under the DFM Employee Stock Appreciation Rights Plan-2020. Consequently the issued and paid up share capital of the Company as on 30" September, 2021 increased to 5,02,75,244 equity shares.

Based on the guiding principles given in Ind AS 108 on "Operating segments" the Company's business activity falls within a single operating segment, namely Snack Foods. Accordingly there are no reportable segments.

The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Financial Results for the quarter/half year ended 30" September, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full Format of the Unaudited Financial Results for the quarter/half year ended 30" September, 2021 are available on the BSE website at www.bseindia.com, NSE website at www.nseindia.com and on the Company's website at www.dfmfoods.com.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD LAGAN SHASTRI

MANAGING DIRECTOR & CEO



तिथि: 11.11.2021 (DIN: 03048392) आंचलिक कार्यालय : मेरठ 'ई-नीलामी' 30.11.2021 इंडियन बैंक Indian Bank अचल सम्पत्तियों की सार्वजनिक बिक्री सूचना 55, द मॉल, मेरठ कैन्ट ALLAHABAD ∆इलाहाबाद

प्रतिभतिकरण एवं वित्तीय संपत्ति पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 की नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित प्रतिभति प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों के विक्रय हेत् ई-नीलामी बिक्री सूचना। आम लोगों का तथा विशेष रूप से अधार लेने वाले और प्रत्याभृति—दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभृति लेनदार के पास गिरवी / प्रभारित है, का (प्रत्येक रचनात्मक / भौतिक /

सांकेतिक खाते का नीचे उल्लेखित है) कब्जा प्रतिभृति लेनेदार के प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बँक (ई–इलाहाबाद बँक), द्वारा लिया गया है,को ''जैसा है जहां है और जो कुछ भी है'' के आधार पर ऋणी / गारन्टर से देय

राशि नीचे उल्लिखित + ब्याज+ अन्य खर्चे, इंडियन बैंक (ई–इलाहाबाद बैंक),की बकाया राशि की वसूली हेतु बेची जायेगी। प्रत्येक सम्पत्ति के लिए रिजर्व मूल्य एवं ईएमडी राशि नीचे दी गई है: बैंक की जानकारी के अनुसार संपत्तियों का ज्ञात प्रकार का विवरण : न्यायसंगत बंधक इलाहाबाद बैंक अब इंडियन बैंक

क0 स0		सम्पत्ति का विवरण कब्जा की किस्म	13(2) नोटिस के अनुरूप बकाया राशि जिस हेतु सम्पत्ति की बिकी ही रही है	ई—नीलामी की तिथि ईएमडी एंव दस्तावेज के जमा की अंतिम तिथि एंव समय	A) रिजर्व मूल्य B) अर्नेस्ट मूल्य C)बिड गुणांक	सम्पर्क विवरण
1.	शास्वा- गढ़ रोड, भेरठ 1. मैसर्स ए.के. इंटरप्राइजेज (प्रोपराइटर श्रीमती कुंता सिंह) मकान नं. 655/3, सेक्टर-03, स्कीम-06, जागृति विहार, भेरठ 2. श्रीमती कुंता सिंह पत्नी श्री आनंद सिंह, मकान नं. 655/3, सेक्टर-03, स्कीम-06, जागृति विहार, मेरठ (प्रोपराइटर) 3. श्री जय किशन पुत्र रमेश चंद, मकान नं. 831, शिव शक्ति नगर, इंद्रा नगर, मेरठ (गारंटर) 4. श्री विकास पुत्र श्री मदन लाल, मकान नं. 2ई-111, सेक्टर-2, शताब्दी नगर मेरठ (गारंटर)	मीटर. सीमायें— पूर्वः 5.50 मीटर / मकान नंबर 656/3, पश्चिमः 4.49 मीटर / मकान नंबर 671/3, उत्तरः 14. 57 मीटर / मकान संख्या 669/3, दक्षिणः 14.57 मीटर / मकान संख्या 654/3 और 6 मीटर चौड़ा रास्ता मौतिक कब्जा	16.09.2017 से + व्याज व अन्य खर्चे	30.11.2021 समय प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक 26.11.2021 समय प्रातः 11:00 बजे प्रॉपर्टी आईडी नंबर : IDIBAL4317AKE04	₹5. 22,52,000/- ₹5. 2,26,000/- ₹5. 50,000/-	श्री राजकुमार 8941024200
2.	शास्ता- गढ़ रोड, मेरठ 1. श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री राज कुमार, मकान संख्या 657/3, सेक्टर—3, स्कीम संख्या 6, जागृति विहार, मेरठ	संपत्ति 1: मकान संख्या 657/3, सेक्टर-3, स्कीम संख्या 6, जागृति विहार, मेरठ, क्षेत्रफल 41.31 वर्ग मीटर, सीमायें: — पूर्वः मकान सं. 658/3, पश्चिमः मकान सं. 656/3, उत्तरः अन्य संपत्ति, दक्षिणः 6 मीटर चौड़ी सड़क भौतिक कब्जा	06.02.2018 से + ब्याज व अन्य खर्चे	30.11.2021 समय प्रातः 11:00 बजे से <u>दोपहर 2:00 बजे तक</u> 26.11.2021 समय प्रातः 11:00 बजे प्रॉपर्टी आईसी नंबर : IDIBAL4317PRA02	रू. 10,00,000/- रू. 1,00,000/- रू. 10,000/-	श्री राजकुमार 8941024200
3.	शास्वा- दिल्ली चुंगी, मेरठ 1. मैसर्स डिलाइट फर्नीचर हाउस (प्रोपराइटर मोहम्मद इरफान पुत्र मोहम्मद अहमद), मदीना कॉलोनी, ग्राम— लिसाड़ी, मेरठ 2. मोहम्मद इरफान पुत्र मोहम्मद अहमद निवासी मकान नं. 768, प्लॉट नंबर 241—बी, मदीना कॉलोनी, लिसाड़ी गेट, मेरठ (ऋणकर्ता) 3. मोहम्मद असलम पुत्र मोहम्मद इंतियाज निवासी मदीना कॉलोनी, ग्राम—लिसाड़ी, मेरठ (गारंटर)	याना 83.61 वर्ग माटर, स्थित मदाना कालाना, राजस्य ग्राम—लिसाड़ी, मेरठ, सीमायों:—पूर्व: 60' / इस्तिखार का प्लॉट, पश्चिम: 60' / अन्य प्लॉट, उत्तर: 15' / 20' बौड़ा रास्ता, दक्षिण: 15' / नाहिद निवाती का प्लॉट	16.05.2017 से + ब्याज व अन्य खर्चे	30.11.2021 समय प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक 26.11.2021 समय प्रातः 11:00 बजे प्रॉपर्टी आईडी नंबर : IDIBAL1280DEL02	ক. 10,20,000/- ক. 1,02,000/- ক. 50,000/-	श्री अमित वर्मा 8974837022

नीलामी की विस्तृत नियम व शर्ते हमारी वेब पोर्टल :- (1) www.indianbank.co.in (2) https://www.ibapi.in (3) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi ऑनलाइन बोली में भाग लेने के लिए बोलीदाताओं को हमारे ई नीलामी सेवा प्रदाता MSTC Ltd की वेबसाइट (mstcecommerce.com/acutionhome/ibapi) पर जाना होगा। तकनीकी सहायता के लिए कृपया MSTC HELPDESK नंबर 033-22901004 और सेवा केंद्र सहायता डेस्क में उपलब्ध अन्य हेल्प लाइन नंबरों पर कॉल करें। MSTC Ltd के साथ पंजीकरण के लिए ibapiop@mstcecommerce.com से संपर्क करें और EMD के लिए कृपया ibapifin@mstcecommerce.com से संपर्क करें। संपत्ति के विवरणों और संपत्ति की तस्वीरों और नीलामी के नियमों और शर्तों के लिए कृपया पोर्टल https://ibapi.in पर देखें। और इस पोर्टल से संबंधित स्पष्टीकरण के लिए, कृपया हेल्प लाइन नंबर 18001025026 और 011-41106131 पर संपर्क करें।

दिनांक- 11.11.2021 स्थानः मेरठ प्राधिकृत अधिकारी इंडियन बैंक (ई-इलाहाबाद बैंक)

बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट पर प्रॉपर्टी की जानकारी के लिए ऊपर दिए गए प्रॉपर्टी आईडी नंबर का उपयोग https://ibapi.in और www.mstcecommerce.com पर देखें।